



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1976/माघ 21, 1897

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1976/MAGHA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th February 1976

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulation, 1976.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, for the heading "Rajasthan" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

RAJASTHAN

1. Senior posts under the State Government	51
Inspector General of Police	1
Additional Inspector General of Police	1
Deputy Inspectors General of Police	9
Assistant Inspectors General of Police	2
Superintendents of Police	26
Superintendents of Police, C.I.D. (Crime)	2

Superintendent of Police, C.I.D. (Intelligence)	1
Superintendent of Police, C.I.D. (S.B.) (Jodhpur Zone)	1
Superintendent of Police, Railways	1
Superintendent of Police, Anti-Corruption	2
Assistant Inspector General of Police, Traffic	1
Principal, A.P., C.P. & R.A.C. Training Centre	1
Commandants, R.A.C.	2
Principal, A.P., C.P. & R.A.C. Training Centre	1
	<hr/>
	51
2. Central Deputation Reserve at 40 per cent of 1 above	20
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, at 25 per cent of 1 and 2 above.	17
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	54
5. Deputation reserve @ 20 per cent of 4 above	11
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above	3
7. Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above.	11
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above.	6
	<hr/>
Direct Recruitment posts	85
Promotion posts	17
	<hr/>
Total authorised strength	102
	<hr/>

[No. 11052/2/76-AIS (II)-A]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सहाय विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 70 (अ)—भा० पु० से० (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार के परामर्श से राजस्थान के भा० पु० से० संवर्ग के संख्या बल और गठन में संशोधन किया है और एतद्वारा निदेश देती है कि भा० पु० से० (संवर्ग संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 की अनुसूची में राजस्थान संवर्ग प्रविष्टि में के बारे में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा—

(1) इन विनियमों को भा० पु० से० (संवर्ग संख्या का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) यह संशोधन भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

संवर्ग संख्या के निर्धारण के लिए संशोधन

1	राज्य सरकार के अधीन खरिष्ठ पद	51
	पुलिस महानिरीक्षक	1
	पुलिस अपर महानिरीक्षक	1

पुलिस उप महानिरीक्षक	9
पुलिस सहायक महानिरीक्षक	2
पुलिस अधीक्षक	26
पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० (अपराध)	2
प्रिसिपल ए०पी०सि०पी० तथा आर०ए०सी० प्रशिक्षण केन्द्र	1
पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी० खुफिया	1
पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, एस०बी० (जोधपुर जोन)	1
पुलिस अधीक्षक, रेल	1
पुलिस अधीक्षक, अष्टाचार निरोध शाखा	2
पुलिस सहायक महानिरीक्षक, यातायात	1
प्रिसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल	1
कमांडेंट, आर० ए० सी०	2
	<hr/>
	51
2 केन्द्रिय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्र०श० की दर से	20
3 आई० ए० एस०/आई० पी० एस० भर्ती नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति और प्रवर्ण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्र०श० की दर से	17
4 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 द्वाराकर	54
5 प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्र०श० की दर से	11
6 छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्र०श० की दर से	3
7 कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20' 60 प्र०श० की दर से	11
8 प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10' 59 प्र०श० की दर से	6
	<hr/>
सीधी भर्ती पद	85
पदोन्नति पद	17
	<hr/>
कुल प्राधिकृत संख्या	102

[स० 11052/2/76-अ० भा० से० (II)-क]

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954:—

- (a) In Schedule III-A, Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of Posts	Scale of Pay
"Rajasthan"	Inspector General of Police	2500-125/2-2750
	Additional Inspector General of Police	2250-125/2-2500
	Deputy Inspector General of Police	2000-125/2-2250"

- (b) In Schedule III-B Posts carrying pay in the Senior scale of the Indian Police Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale) in the Table for the entry "Rajasthan" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely:—

State	Particulars of the Posts
"Rajasthan"	Assistant Inspector General of Police
	Superintendent of Police
	Superintendent of Police, C.I.D. (Crime)
	Superintendent of Police, C.I.D. (Intelligence)
	Superintendent of Police, C.I.D. (S.B.) (Jodhpur Zone)
	Superintendent of Police, Railways
	Superintendent of Police, Anti-Corruption.
	Assistant Inspector General of Police, Traffic
	Principal, Police Training School
	Commandant, R.A.C.
	Principal, A.P., C.P. & R.A.C. Training Centre.

[No. 11052/2/76-AIS (II)-B]

A. K. GUPTA, Under Secy.

सा० का० नि० 71(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वारा संशोधन विनियम, 1976 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची-III में

- (क) "—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में वेतन के सम्य वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन "राजस्थान" प्रविष्टि के आगे, पहले

कालम में दूसरे तथा तीसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“पुलिस महानिरीक्षक 2500-125/2-2750

पुलिस अपर महानिरीक्षक 2250-125/2-2500

उप पुलिस महानिरीक्षक 2000-125/2-2250

(ख) “ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पद जिसमें समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतनों वाले पद भी शामिल हैं, ‘शीर्षक के अधीन’ राजस्थान” प्रविष्टि के आगे पहले कालम में दूसरे कालम में दी गई तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

सहायक पुलिस महानिरीक्षक

पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधीक्षक (रेल)

पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०

एन० बी० (जोधपुर जोन)

पुलिस सहायक महानिरीक्षक, यातायात

प्रिसिपल, ए० पी० सि० पी० तथा आर० ए० सी० प्रशिक्षण केन्द्र

प्रिसिपल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल

कमांडेंट, आर० ए० सी०

पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी०) खुफिया

पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोध शाखा

सहायक पुलिस अधीक्षक (यातायात)

[सं० 11052/2/76-प्र० भा० से० (II)-ख]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव।

